

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 548]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 नवम्बर 2014—अग्रहायण 7, शक 1936

#### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2014

फा. क्र. 17(ई)-261-2014-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जिला मंदसौर (मध्यप्रदेश) हेतु नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2014-15 हेतु निर्वाचन कार्य सम्पादित कराने के लिये, संलग्न सूची में उल्लिखित अधिकारियों को नगरीय निकायों निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**अमिताभ मिश्र**, अपर सचिव.

क्र. (1)	नगरीय निकाय का नाम (2)	सेक्टर क्र. (3)	मतदान केन्द्र क्रमांक (4)	अधिकारी का नाम एवं पदनाम (5)
1	नगरी	01	1, 2, 3, 4, 5	श्री मनोज दुबे, परियोजना अधिकारी, ICDS ग्रामीण मंदसौर मो. 9425660033.
2	नगरी	02	6, 7, 8, 9, 10	श्री के. सी. शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी, मन्दसौर मो. 9826650737.
3	नगरी	03	11, 12, 13, 14, 15	श्री आर. एस. तंवर, सहा. प्रबंधक, म. प्र. ग्रा. सड़क प्राधिकरण, मन्दसौर-9713423852.
4	पिपलियामण्डी	01	1, 2, 3	डॉ. एस. वी. कोसरवाल, उप संचालक, पशुपालन, मन्दसौर मो. 9425034749.
5	पिपलियामण्डी	02	10, 11, 12, 13, 14, 15	श्रीमति मेघना भट्ट, सहायक आयुक्त, श्रम विभाग, मन्दसौर मो. 9425107432.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	पिपलियामण्डी	03	4, 5, 6, 7, 8, 9	श्री यशपाल जौशी, महाप्रबंधक, सड़क प्राधिकरण, मन्दसौर मो. 9424454667.
7	मल्हारगढ़	01	1, 2, 3, 4, 5	सुश्री प्रियंका जायसवाल, सहा. परि. अधिकारी, महिला बाल विकास, मल्हारगढ़, मो. 9754241600.
8	मल्हारगढ़	02	6, 7, 8, 9, 10	श्रीमती उर्मिला तोमर, प्राचार्य डाईट मन्दसौर, मो. 942544662.
9	मल्हारगढ़	03	11, 12, 13, 14, 15	श्री रविन्द्र महाजन, जिला म. सशक्तिकरण अधिकारी मन्दसौर, मो. 8827351039.
10	नारायणगढ़	01	1, 4, 5, 10, 11, 12	श्री अशोक जैन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मन्दसौर मो. 9425976829.
11	नारायणगढ़	02	7, 8, 9, 13, 14, 15	श्री पी. के. शर्मा, सड़क प्रा. मन्दसौर, मो. 9926677644.
12	नारायणगढ़	03	2, 3, 6	श्री सोहनलाल बजाज, अक्षय ऊर्जा मन्दसौर, मो. 9827222217.
13	सीतामऊ	01	4, 5, 7, 8, 9, 15	श्री मनोज जाट, परियोजना अधिकारी, महिला बाल विकास सीतामऊ, मो. 9425084627.
14	सीतामऊ	02	1, 2, 3, 12	श्री संतोष पटेल, जिला योजना अधिकारी, मन्दसौर, मो. 9827790256.
15	सीतामऊ	03	6, 10, 11, 13, 14	श्री पी. सी. पाटीदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सीतामऊ, मो. 8085596785.
16	शामगढ़	01	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	डॉ. एच. पाटीदार, डीन उद्यानिकी महा., मन्दसौर मो. 9926478278.
17	शामगढ़	02	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.	श्री बी. आर. सगेदे, उप संचालक, उद्यानिकी विभाग, मन्दसौर, मो. 9424317622.
18	शामगढ़	03	17, 18, 19, 20, 21	श्री एच. कुम्भरे, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वा. यां., मन्दसौर, मो. 9425855990.
19	गरोट	01	1, 2, 3, 4, 5	श्री डी. सी. कुम्भरे, कार्यपालन यंत्री, पी.आई.यू., मन्दसौर, मो. 9425990925.
20	गरोट	02	6, 7, 8, 9, 10	श्री सी. के. भीसे, सहायक संचालक, मछली पालन, मन्दसौर, मो. 9200574214.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	गरोठ	03	11, 12, 13, 14, 15	श्री ए.आर. अन्सारी, परि. अधि., म.बा.वि. सीतामऊ, मो. 8989466572.
22	भानपुरा	01	5, 6, 7, 8, 9	श्री आर. आर. बारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, भानपुरा, मो. 9685749432.
23	भानपुरा	02	11, 12, 13, 14, 15, 16	श्री आर. के. शर्मा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन गांधी सागर, मो. 9407101520.
24	भानपुरा	03	1, 2, 3, 4, 10	श्री नवीन भास्कर, सहायक यंत्री, लो.स्वा.यां. भानपुरा, मो.
25	रिजर्व	-	-	श्री अनिल भट्ट, परि. अधि. बालश्रम, मन्दसौर
26	रिजर्व	-	-	श्री जी. एन. पाण्डे, वरि. वैज्ञानिक, उद्यानिकी महा., मन्दसौर.
27	रिजर्व	-	-	डॉ. आर. एच. चूण्डावत, वरि. वैज्ञानिक, उद्यानिकी महा., मन्दसौर.
28	रिजर्व	-	-	डॉ. जे. के. जैन, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, मन्दसौर, मो. 9826458277.